

AGREEMENT NO:-13/MMGISY(ST)/SBP/2020-21

**Schedule XLV-Form No. 134**

NAME OF WORK:- MAKHAN POKHAR PMGISY ROAD  
TO ADIWASI TOLA(TENDER ID:- 95954)

R.W.D(WD) KISHANGANJ-2 **DIVISION**

POTHIA **SUB-DIVISION**

MB NO:-1145;

**MEASUREMENT BOOK**

NAME OF AGENCY:- MD-ZAEER ALAM

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100  
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री...राम...ज्ञानार्थ  
सहायक अधिकारी, ग्राम कार्यविभाग अवर प्रमण्डल...प्रिया  
के नाम से निर्गत किया जाता है।

Ch. 1-7-20

कार्यपालक अधिकारी

ग्राम कार्यविभाग, कार्य प्रमण्डल

किशनगंगा-2

July 20

July 20

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD) KISHANGANGA DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No. 1145

Name of Officer श्री राम प्रसाद सहायक  
अधिकारी ग्राम कार्यविभाग अवर प्रमण्डल पीछीपां

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

1st on A/c Bill

Name of work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W:-	Const. of Road	for 0002			
	Markam Pukharp MG Sy				
	Road to Adinwasji toki.				
	Agreement no-	13/MMG Sy(ST)/SAO/2020-21			
Agency:-	Md. Zafqar Alqam				
Dt. of start-	22-04-2020				
Dt. of completion -	21-01-2021				

Measurement.

1. Setting out pillars.

(i) working benchmark — 0.525 KM

(ii) Reference pillars — 0.525 KM

$\frac{2}{3}$  clearly & correctly road land with all

comp.

$$2 \times 10 \text{ } 30.0 \text{ } 1.125 = 675.0 \text{ } \text{m}^2$$

$$2 \times 7 \text{ } 30.0 \text{ } 1.125 = 472.5 \text{ } \text{m}^2$$

$$2 \times 1 \text{ } 15.0 \text{ } 1.125 = 33.75 \text{ } \text{m}^2$$

$$1181.25 \text{ } \text{m}^2$$

$$\Rightarrow 0.118125 \text{ } \text{ha.}$$

$\frac{3}{5}$  Const. of embankment

with material obtained

from borrow pits with

lead up to 100 M

all comp.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2x10	30.0	1.10	0.30	$= 198.0 \text{ m}^3$
	2x1	25.0	1.10	0.25	$13.75 \text{ m}^3$
					$211.75 \text{ m}^3$
4/4.	Constn. of Gobankorozt with material obtained from borrow pits with all comp. load upto 1000 M.				
	2x6	30.0	1.25	0.30	$135.0 \text{ m}^3$
	2x1	20.0	1.20	0.35	$15.80 \text{ m}^3$
					$150.80 \text{ m}^3$
	<i>Amir 24/11/2020 JE</i>				

5/6.	Const. of Subgrade and Eartery shoulder with all comp.				
	10	30.0	7.275 (av) 0.30	$= 654.75 \text{ m}^3$	
	1	25.0	7.275 (av) 0.30	$= 54.56 \text{ m}^3$	
					$709.31 \text{ m}^3$

*Amir  
24/11/2020  
JE*

6(7+12) Const. of Argular sub-  
base by providing well  
graded material with  
all comp.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	5 X	30.0	4.10	0.20	$= 123.0 \text{ m}^3$
	5 X	30.0	4.10	0.20	$= 123.0 \text{ m}^3$
	1 X	25.0	4.05	0.20	$= 20.25 \text{ m}^3$
	6 X	30.0	3.8	0.10	$= 68.4 \text{ m}^3$
					$\underline{\underline{334.65 \text{ m}^3}}$
					$334.65 \text{ m}^3$

Akgmr.28/11/2020  
JE.Measurement.

7/8/13	P/V. laying spreading and compacting WBM Gr. III with all comp.	5 X 30.0 3.75 0.075	$42.187 \text{ m}^3$
		5 X 30.0 3.75 0.075	$42.187 \text{ m}^3$
		1 X 25.0 3.75 0.075	$7.031 \text{ m}^3$
		6 X 30.0 3.75 0.075	$= 50.625 \text{ m}^3$
			$142.03 \text{ m}^3$

8. P/V. and fixing MMGSY  
Information sign board  
with all comp. — 2 Nos.

Akgmr.  
15/12/2020  
JE.

Continuation

VERIFIED BY

ABSTRACT OF COST

4

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/1) Setting out pillars with all comp. vide TMB P.No-(1) 9ft 0in 11(i) 0.52 Nos OS 3972-91/M <sup>2</sup> → 2066.00					
(2/2) Reference pillars with all comp. vide TMB P.No-(1) 9ft 0in 11(ii) 0.52 Nos. OS 1822.54 / → 948.00					
(3/3) clearing & Grabbing road land with all comp. vide TMB P.No- ① 9ft 0in ② 0.118125 Hs. OS 51133-76/H <sup>2</sup> → 6040.00					
(4/4) Const. of embankment with material obtained from borrow pits with 1000m lead up to. vide TMB P.No-(2) 9ft 0in (4/4)-151-80 H <sup>2</sup> OS 175-43/M <sup>2</sup> → 26630.00					
(5/5) Const. of embankment with material obtained from borrow pits lead up to 1000m all comp. Continuation					

Rs. 35,684=00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					P.S.F.R.B - 35684=00
(5)	wide TMB P. No - (1)				
	97000 (3/5) 211.75 M <sup>3</sup>				
	OS 141.56 /M <sup>3</sup>				29975=00
(6)	const. of subgrade and Erosion shoulder with all comp-				
	wide TMB P. No - (2)				
	97000 (5/6) 709.31 M <sup>3</sup>				
	OS 177.07 /M <sup>3</sup>				125598=00
(7)+(12)	Const. of granular sub- base by providing well graded Mac. all comp.				
	wide TMB P. No - (3)				
	97000 (6/7+12) 334.65 M <sup>3</sup>				
	OS 2701-05 /M <sup>3</sup>				903906=00
8/(8+13)	P.V. laying spreading and compactly of WBM gr-ii with all comp.				
	wide TMB P. No - (3)				
	97000 (7/8+13) 142.03 M <sup>3</sup>				
	OS 4389.34 /M <sup>3</sup>				623418=00
(9/25)	P.V. and fixing logo of MMGSY information sign board with all comp.				
	wide TMB P. No - (3)				
	97000 (8) 2 Nos. OS 9284.06 /M <sup>3</sup>				18568=00

Continuation

B 17,37,149=00

